

कार्यालय— जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी(म.प्र.)

जिला एवं सत्र न्यायालय, कटनी

क्र.फा.नं. क्यू/LADCS/जिविसेप्रा/933/2026

कटनी, दिनांक: 30/6/2026

// भर्ती विज्ञप्ति //

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर, से ई-मेल के माध्यम से प्राप्त पत्र क्र.फा.नं. 97/एलएडीसीएस/राविसेप्रा/4420, जबलपुर, दिनांक 12.11.2024 पत्र के पालन में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी अंतर्गत कार्यालय लीगल एड डिफेंस काउंसिल हेतु कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा भृत्य पद के लिए संविदा आधार पर 01 वर्ष हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं :-

- आवेदन करने की प्रारंभ तिथि – दिनांक 01.07.2026 से प्रारंभ
- आवेदन करने की अंतिम तिथि – दिनांक 31.07.2026 को सायं 05.00 बजे तक
- पद का नाम एवं संख्या :-
  - कार्यालय सहायक – 01 पद
  - रिसेप्शनिस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर – 01 पद
  - कार्यालय भृत्य – 01 पद
- साक्षात्कार तथा आवश्यक पद अनुसार व्यवहारिक परीक्षा हेतु दिनांक, प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी के उपरांत जिला न्यायालय कटनी की अधिकारिक वेबसाईट <https://katni.dcourts.gov.in/> तथा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के सूचना पटल पर बाद में अधिसूचित की जाएगी।
- आवेदन पत्र विज्ञापन दिनांक 01.07.2026 से दिनांक 31.07.2026 तक सायं 5:00 बजे तक भरे जा सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी से अथवा जिला न्यायालय कटनी की अधिकारिक वेबसाईट <https://katni.dcourts.gov.in/> से प्राप्त कर सकते हैं।

6. वेतनमान :-

1	कार्यालय सहायक	₹15,000/- to 20,000/-
2	रिसेप्शनिस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर	₹15,000/- to 17,000/-
3	कार्यालय भृत्य	₹10,000/- to 12,000/-

## 7. शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ :-

### कार्यालय सहायक/क्लर्क के लिए योग्यता :-

- शैक्षणिक न्यूनतम योग्यता :- स्नातक उत्तीर्ण,
- बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग, कौशल और डेटा फीड करने के लिए कम्प्यूटर संचालन कौशल की क्षमता,
- अच्छी टाईपिंग गति की प्रवीणता के साथ याचिका की उचित सेटिंग का ज्ञान,
- डिक्टेशन, प्राप्त करने तथा न्यायालयों में सही ढंग से फाईल प्रस्तुत करने की क्षमता,
- कार्यालय की फाईल्स एवं अन्य दस्तावेजों का जिम्मेदारी पूर्वक सही ढंग से रख-रखाव तथा प्रसंस्करण ज्ञान।
- एवं नालसा संशोधित लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम 2022 की मंशा अनुसार अन्य योग्यताएं

### रिसेप्शनिस्ट सह डेटा एन्ट्री ऑपरेटर की योग्यताएं :-

- शैक्षणिक न्यूनतम योग्यता :- स्नातक उत्तीर्ण,
- उत्कृष्ट, मौखिक तथा लिखित संचार कौशल,
- वर्ड तथा डेटा प्रोसेसिंग क्षमता,
- दूर संचार प्रणालियों(टेलीफोन, फैक्स, स्वीच बोर्ड आदि) पर कार्य करने की क्षमता
- अच्छी टाईपिंग गति के साथ प्रवीणता
- नालसा, संशोधित लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम 2022 की मंशा अनुसार अन्य योग्यताएं।

### कार्यालय भृत्य हेतु योग्यता :-

- कार्यालय भृत्य हेतु, नालसा संशोधित लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम 2022 की मंशा अनुसार शासन द्वारा निर्धारित कक्षा 8वीं उत्तीर्ण।
- हिन्दी भाषा को पढ़ने और लिखने की क्षमता।
- नालसा, संशोधित लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम 2022 की मंशा अनुसार अन्य योग्यताएं।

### चयन एवं अभ्यर्थिता हेतु अर्हता निम्नानुसार होगी :-

1. कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो।
2. दिनांक 01.01.2026 की स्थिति में आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है।
3. कोई भी अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
4. कोई भी अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा, जिसकी 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान है, जैसा कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 के नियम, 6 (6) में प्रावधानित किया गया है।

टीप:- आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक को उपरोक्त अनुसार दर्शित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

## 8. आवेदन पत्र एवं स्वप्रमाणित आवश्यक दस्तावेज :-

आवेदक, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की संशोधित, लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम 2022 के अंतर्गत उल्लेखित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता तथा इस विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार अपने आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरें तथा अपने आवेदन पत्र के साथ आवश्यक समस्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता से संबंधित दस्तावेज प्रेषित किया जाना अति आवश्यक है, यदि किसी अभ्यर्थी के पास समस्त दस्तावेज उपलब्ध है एवं वह अपने आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं करता है, तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जावेगा, ऐसे अभ्यर्थी को पात्र किये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

## 9. आवेदन पत्र का प्रेषण :-

आवेदक अपना आवेदन पत्र एवं समस्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ एवं दो नवीन रंगीन छायाचित्रों (पासपोर्ट साईज फोटो) के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से जिस पद हेतु आवेदन पत्र भेजा जा रहा है, उस पद का नाम अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के नाम से संबोधित करते हुए, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी में स्वयं उपस्थित होकर अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दिनांक 31.07.2026 को सायं 5.00 बजे तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं कोई पत्राचार भी मान्य नहीं होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जाएगा, भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। आवेदन पत्र व आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त न होने की दशा में संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी और उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा।

## 10. प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी :-

दिनांक 31.07.2026 सायं 05.00 बजे तक प्राप्त आवेदन पत्रों की नियमानुसार स्कूटनी कार्य किया जाएगा। स्कूटनी कार्य में पात्र पाए गए आवेदकों की अंतिम सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के सूचना पटल पर तथा जिला न्यायालय कटनी की आधिकारिक वेबसाईट <https://katni.dcourts.gov.in/> पर प्रदर्शित की जाएगी।

## 11. पात्र आवेदकों की परीक्षा/साक्षात्कार :-

11.1 कार्यालय सहायक एवं रिसेप्शनिष्ट सह डेटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद हेतु पात्र आवेदकों का चयन व्यवहारिक टायपिंग परीक्षा/साक्षात्कार के आधार पर किया जावेगा। अभ्यर्थियों का मेरिट के आधार पर चयन किया जावेगा। जिसकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के सूचना पटल एवं जिला न्यायालय कटनी की आधिकारिक वेबसाईट <https://katni.dcourts.gov.in/> पर पृथक से प्रदर्शित की जाएगी। आवेदक को साक्षात्कार/टायपिंग टेस्ट दिनांक के दिन अपने आवेदन पत्र में संलग्न स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। जिसका सत्यापन, साक्षात्कार दिनांक पर किया जाएगा। साक्षात्कार तथा पात्रता अनुसार टायपिंग परीक्षा दिनांक पर अनुपस्थित आवेदक को साक्षात्कार तथा टायपिंग परीक्षा हेतु दुबारा मौका नहीं दिया जाएगा तथा उसका आवेदन अनुपस्थिति की दशा में स्वतः निरस्त माना जाएगा।

11.2 भृत्य के पद हेतु पात्र आवेदकों का चयन, चयन समिति द्वारा साक्षात्कार द्वारा किया जावेगा। आवेदकों को साक्षात्कार के लिए नियत की जाने वाली तिथि पर आमंत्रित किया जाएगा, जिसकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के सूचना पटल एवं जिला न्यायालय कटनी की आधिकारिक वेबसाईट <https://katni.dcourts.gov.in/> पर पृथक से प्रदर्शित की जाएगी। आवेदक को साक्षात्कार दिनांक के दिन अपने आवेदन पत्र में संलग्न स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। जिसका सत्यापन, साक्षात्कार दिनांक पर किया

जाएगा। साक्षात्कार दिनांक पर अनुपस्थित आवेदक को साक्षात्कार हेतु दुबारा मौका नहीं दिया जाएगा तथा उसका आवेदन अनुपस्थिति की दशा में स्वतः निरस्त माना जाएगा।

**नोट—** चयन प्रक्रिया अंतर्गत साक्षात्कार में 01:10 के अनुपात में प्रतीक्षा सूची संधारित होगी। प्रतीक्षा सूची अंतिम परिणाम जारी होने की तिथि से 12 महीने की अवधि के लिये लागू रहेगी, जिसे मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के अनुमोदन के बाद 6 माह के लिये आगे बढ़ाया जा सकता है।

## 12. चयन परिणाम :-

चयन समिति/बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से चयनित आवेदकों की चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के सूचना पटल पर तथा जिला न्यायालय कटनी की आधिकारिक वेबसाईट <https://katni.dcourts.gov.in/> पर प्रकाशित की जाएगी। एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की दशा में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता देते हुए सूची तैयार की जाएगी। आवेदक अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी में संपर्क कर सकते हैं।

## नोट :-

अंतिम परिणाम सूची में अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसे की आवश्यक समझा जाए, यह समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि या अन्य कोई सारवान त्रुटि ध्यान में आती है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी का परिणामिक/आवश्यक परिवर्तनों के साथ चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

## 13. नियुक्ति के संबंध में :-

चयनित आवेदकों की नियुक्ति माननीय म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के पत्र क.फा.नं. 97/एलएडीसीएस/राविसेप्रा/4420, जबलपुर, दिनांक 12.11.2024 के अनुसार एक वर्ष के लिए संविदा आधार पर की जाएगी। संविदा अवधि के पश्चात् नियमित नियुक्ति या निरंतर सेवा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

चयनित आवेदक को पुलिस वैरीफिकेशन प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, तथा जिला मेडिकल बोर्ड से स्वयं के व्यय पर मेडिकल जांच करवाकर फिटनेस सर्टिफिकेट, प्रस्तुत करना होगा।

## 14. शुद्धि पत्र :-

उपरोक्तानुसार पदों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान यदि किसी प्रकार के स्पष्टीकरण या संशोधन की आवश्यकता होती है, तो उक्त संशोधन शुद्धिपत्र के माध्यम से जिला न्यायालय कटनी की आधिकारिक वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाईट पर प्रकाशित शुद्धिपत्र को सभी अभ्यर्थियों के लिए उचित एवं पर्याप्त सूचना के रूप में समझा जावेगा। शुद्धिपत्र की जानकारी प्राप्त नहीं होने के आधार पर प्राप्त अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

## 15. अभ्यावेदन पत्राचार—

ई०मेल के माध्यम से कोई भी अभ्यावेदन/आवेदन स्वीकार नहीं होगा और स्वतः निरस्त माना जाएगा। विज्ञापन की शर्तों में परिवर्तन, अर्हता, आयु—सीमा एवं साक्षात्कार तिथियों आदि में परिवर्तन या छूट के संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

• 16. आवेदनों का विनष्टीकरण :-

अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को छोड़कर अन्य सामग्री को अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दिया जाएगा।

// चयन एवं अभ्यर्थित के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी //

1. कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंतर्गत लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम हेतु स्टॉफ(कार्यालय सहायक, रिसेप्सनिष्ट सह डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर एवं कार्यालय भृत्य) की भर्ती पूर्ण रूप से संविदा आधार पर एक वर्ष हेतु होगी।
2. अभ्यर्थी तीनों पद/वर्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा तथा आवेदन पत्र में अपने पद की वरीयता दर्शित करनी होगी।
3. अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के निरीक्षण व सत्यापन की कार्यवाही साक्षात्कार दिनांक को ही होगी और उन्हें साक्षात्कार में मूल दस्तावेज एवं पहचान पत्र के साथ उपस्थित होना होगा।
4. यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुए भी आवेदन प्रेषित करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है अथवा उसमें असत्य जानकारी दी जाती है अथवा कोई जानकारी नहीं दी गई है अथवा किसी जानकारी को छुपाया है तो ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर/प्रकम पर चयन/अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं होगा।
5. साक्षात्कार तथा आवश्यक पद हेतु टाइपिंग टेस्ट, दिनांक की सूचना जिला न्यायालय कटनी की आधिकारिक वेबसाइट <https://katni.dcourts.gov.in/> एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी।
6. यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई दंडिक प्रकरण किसी पुलिस थाना, न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो अथवा उसे दोषसिद्ध कर दंडित किया गया हो तो निर्णय संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक आदि की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदान करें।
7. पुनः मूल्यांकन/पुनः साक्षात्कार हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा इस संबंध में प्राप्त आवेदन अभ्यावेदन संक्षिप्त निरस्त कर दिए जाएंगे।
8. आवेदक को साक्षात्कार की सूचना उसके आवेदन में उल्लेखित मोबाइल नंबर पर **SMS/Whatsapp** के माध्यम से तथा जिला न्यायालय कटनी की आधिकारिक वेबसाइट <https://katni.dcourts.gov.in/> पर दी जाएगी, जिसमें आवेदक समय-समय पर वेबसाइट एवं अपने मोबाइल की जांच करते रहें। सूचना न मिलने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी तथा जिला न्यायालय, कटनी की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
9. प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थी की सेवाएं संतोषजनक न पाये जाने या अन्य प्रशासनिक स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी समय बिना कारण बताए 01 माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकेगी। चयनित अभ्यर्थी भी 01 माह का पूर्व नोटिस देकर या 01 माह का वेतन के बराबर राशि जमा किया जाकर त्यागपत्र दे सकेगा।
10. उपरोक्तानुसार भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से लीगल एड डिफेंस काउंसिल माडीफाईड स्कीम 2022 तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन अनुसार की जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई संशोधन अथवा निरस्तीकरण का अधिकार माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी को होगा।



मृणालिनी सिंह  
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/सचिव  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
जिला न्यायालय कटनी (म0प्र0)

नालसा, लीगल एड डिफेंस काउंसिल मॉडिफाईड स्कीम, 2022 के अंतर्गत

- लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं कार्यालय भृत्य की संविदा आधार पर 01 वर्ष हेतु भर्ती

// आवेदन पत्र //

आवेदन पत्र क्रमांक .....(कार्यालय उपयोग हेतु)

आवेदित पद – (कार्यालय सहायक/रिसेप्शनिस्ट कम डेटा ऑपरेटर/कार्यालय भृत्य)

स्वप्रमाणित नवीनतम  
पासपोर्ट साईज  
फोटोग्राफ चस्पा करें।

1. आवेदक का नाम – .....
2. पिता/पति का नाम – .....
3. जन्म तिथि: – .....आयु– 01.01.2026 को .....वर्ष..... माह.....दिन  
(जन्म तिथि के संबंध में आवश्यक स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
4. लिंग – पुरुष / महिला
5. वर्तमान पूर्ण पता – .....
6. स्थायी पूर्ण पता – .....
7. मोबाईल नंबर , लैंडलाइन नंबर – .....  
(व्हाट्सएप नंबर सहित)
8. ईमेल आई-डी – .....
9. पेन कार्ड नंबर –.....  
(स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
10. आधार कार्ड नंबर – .....  
( स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
11. ड्राइविंग लायसेंस यदि हो तो – .....  
( स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
12. शैक्षणिक योग्यताएँ– केन्द्र अथवा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त विद्यालय/  
महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।

क्र.	कक्षा	बोर्ड/ विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण/वर्ष	प्राप्त प्रतिशत
1	8वीं			
2	10वीं			
3	12वीं			
4	स्नातक/स्नातकोत्तर			
5	कम्प्यूटर योग्यता			
6	अन्य शैक्षणिक योग्यता			

नोट :- आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अनुसार

अंकसूची/डिग्री/डिप्लोमा की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

### 13. कार्य अनुभव :-

आवेदक के पास कोई कार्य अनुभव हो, तो कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

दिनांक :- .....

हस्ताक्षर/-

स्थान :- .....

### स्व घोषणा पत्र

मैं .....पद के लिए आवेदन करना चाहता/चाहती हूँ।  
मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... उम्र .....  
वर्ष ..... निवासी ..... जिला ..... राज्य .....  
..... एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ, कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैंने इसमें कुछ भी छिपाया नहीं है, मुझे यह संज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभों को भी वापस किया जाएगा। मेरे विरुद्ध किसी भी पुलिस थाने, न्यायालय तथा अन्य किसी विभाग में कोई आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।

दिनांक :- .....

हस्ताक्षर/-

स्थान :- .....

नोट:- यदि कोई आपराधिक प्रकरण/कार्यवाही संस्थित अथवा निराकृत हुई हो तो विवरण एवं दस्तावेज पृथक से प्रस्तुत करें।